

REGENT ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office:-E-205 (LGF), Greater Kailash II, New Delhi-110048, India

Tel:-011-29312101, Fax:-011-29312102, E-mail:- info@regentindia.com



PTI ■ MUMBAI as per the revised Economic Buffer at 5.5 per cent," it said. will miss the target. from July-June at present and

July, compared to 13.60 per cent drop in the previous month. Manufactured products, however, witnessed inflation of 0.51 per cent in July, against 0.08 per cent in June.

ICRA Principal economist Aditi Nayyar said the considerable narrowing in the WPI disinflation in July 2020 relative to the previous month, was 'along

PTI MUMBAI meat and fish official data released post

Crude oil benchmark Brent crude rose 44.67 per barrel in the forex market, the rupee settled 6 paise lower at 74.90 against US dollar.

MUMBAI...

PTI NEW DELHI

States can make e-wash bill mandatory

Greater Noida: On the occasion of Independence Day, the Greater Noida Authority is bringing an open-ended scheme of residential buildings from data

WESTERN RAILWAYS						
MAINTENANCE WORKS						
Sr. No.	Contract No. & Date	Work-sited location	Est. / Tender Crossing Price Rs.	Actual cost of Work Rs.	Cost at Revised Price Rs.	Saved Rs.
1	CA-11-NFROOH- LJ-UDN-JL-58 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights at West Railway Crossing, Bandra station, facing west, total display area 720 sq. ft., for a period of five years.	₹ 24,95,000/- (excluding taxes etc.)	₹ 1,00,000/- (excluding taxes etc.)	₹ 1,00,000/-	₹ 23,95,000/-
2.	CA-11-NFROOH- LJ-UDN-JL-58 dated 13.08.2020	Bulk advertising rights for erection & display of hoardings at Level Crossing Gates between Udhana and Jalgaon section for 24	₹ 4,66,200/- (excluding taxes etc.)	₹ 24,78,472/- (excluding taxes etc.)	₹ 3,00,000/-	₹ 49,58,472/-

[illegible][illegible]

लाहिड़ी ने विंघम चैंपियनशिप में एक अंडर का कार्ड खेला
वीन्सबोरो। भारतीय गोल्फर ऑनबर्न लाहिड़ी ने पांच महीने के बाद वापसी करते हुए विंघम चैंपियनशिप के पहले दौर में गुस्कार को एक अंडर 69 का कार्ड खेला जबकि खराब मौसम के कारण अर्जुन अटवाल का खेल पूरा नहीं हुआ।

शुभंकर पहले दौर के बाद संयुक्त 71वें स्थान पर न्यूपोर्ट (वेल्स)। भारतीय गोल्फर शुभंकर

धोनी शिविर में पसीना बहायेंगे

भाषा। चेन्नई

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपरकिंग्स के टीम के उनके साथी खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए यूएई खाना होने से पहले अभ्यास शिविर में भाग

● **सीएसकेखिलाड़ी आईपीएल शिविर के लिए चेन्नई पहुंचे**

टीम की हार के बाद से धोनी से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेला है।



सेरेना ने 31वीं भिड़ंत में वीनस को हराया

भाषा। लेक्सिंगटन

तेईस बार की ग्रैंडस्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टॉप सीड ओपन के दूसरे दौर के मैच में अपनी बहन वीनस विलियम्स को 3-6 6-3 6-4 से शिकस्त दी। सेरेना और वीनस के

बीच हुए 31वें मुकाबले में सेरेना ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की और अगले दौर में जगह बनाई। अब शीर्ष वरीय सेरेना का सामना अमेरिका की वाइल्डकार्ड से प्रवेश करने वाली शेल्बी रोजर्स से होगा जिन्होंने कनाडा की क्वालीफायर लेलाह फर्नांडिज को

6-2 7-5 से पराजित किया। जिल टेचमान ने भी पांचवीं वरीय यूलिया पुलितसेवा पर 6-2 6-2 से जीत दर्ज कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया और अब उनका सामना सिंसि बेलिस से होगा जिन्होंने जेसिका पेगुला को 6-3 6-2 से मात दी।



डेल्टन केबल्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : डेल्टन हाउस, 4801, परल राम रोड, 24, दरियापुड़ा, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट : www.deltoncables.com, ई-मेल : cs@deltoncables.com, सीआईएन : एल31300टीएल1964पीएलसी004255